

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 2020 की टर्म ऑफ काउंसिल की झलकियां उजागर कीं और काउंसिल ने 2021-2022 के लिए 16 मुख्य प्राथमिकताओं के तीव्र फोकस को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ऑनटैरियो (28 जनवरी, 2021) – कल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, महामारी में पिछले वर्ष की मुख्य उपलब्धियों को उजागर करते हुए, 2020 में 2018-2022 की टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज (Term of Council priorities) के आगे बढ़ने के बारे में ताज़ा जानकारी रिलीज की।

मेयर और काउंसिल के मेम्बर्स के साथ किए गए इंटरव्यू, सीनियर लीडरशिप से लिए गए फीडबैक और नवंबर 2020 में काउंसिल वर्कशॉप में किए गए मतदान अभ्यास के परिणामस्वरूप, कल काउंसिल ने समुदाय की मदद के लिए काउंसिल की मुख्य प्राथमिकताओं के तौर पर, [16 पहलकदमियों \(16 initiatives\)](#) (पृष्ठ 162) को मंजूरी दी। प्राथमिकताओं को दो स्ट्रीमों में बांटा गया है:

इंटरगवर्नमेंट/हिमायत करने वाली प्राथमिकताएं; और सिटी द्वारा आवश्यक की गई/नियंत्रित की गई प्राथमिकताएं, ये सभी, ब्रैम्पटन के स्थापित कार्यनीति संबंधी निर्देशों की हिमायत करना जारी रखेंगी।

कोविड-19 (COVID-19) ने ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां और चुनौतियां पैदा कीं, जिनके कारण प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने में, स्टाफ को जल्दी वाले उपाय अपनाने पड़े। इसके बावजूद, सिटी ने कोविड-19 को कम करने और बहाली में संतुलन कायम करते हुए, मुख्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखा:

ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है (Brampton is a City of Opportunities)

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, निम्नलिखित कामों के द्वारा, जीने की योग्यता को बेहतर बनाना और कारोबारों को सहयोग करना जारी रखा:

- छोटे कारोबारों को फंडिंग ग्रांट करने के तौर पर 233,000 डालर प्रदान करना
- 137 आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रमों और सेमिनारों के द्वारा, 5,000 से अधिक भागीदारों को शामिल करना
- ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) के द्वारा, 38 नए कारोबार पैदा करने और 82 कारोबारों का विस्तार करने सहित, 1,043 क्लाइंट परामर्श प्रदान करना
- डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में, आर्थिक मौजूदगी में वृद्धि करने के लिए, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में चार नए साइडेदार बनाना

ब्रैम्पटन मोजैक है (Brampton is a Mosaic)

सिटी ने निम्नलिखित कामों के द्वारा, ब्रैम्पटन की विविधता और चैम्पियन समावेश का जश्न मनाना जारी रखा:

- गैर-लाभ संगठनों के लिए 48 डिजिटल प्रोजेक्ट्स की हिमायत करते हुए, एडवांस ब्रैम्पटन फंड (Advance Brampton Fund) में 435,561 डॉलर का निवेश करना
- ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई को स्थापित किया। साथ ही, कार्यस्थल और समुदाय में रुकावटों को पहचानकर, उन्हें दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, 2021 में इक्विटी ऑफिस (Equity Office) की शुरुआत को मंजूरी दी
- 900 व्यक्तियों की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ, ब्लैक कम्युनिटी (Black Community) के लिए फायर सर्विसिज कैरियर जानकारी सेशन की मेजबानी करना
- सुरक्षा और समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सिटी के दो पार्क, पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क (Purple Lilac Memorial Park) और इमैंसिपेशन पार्क (Emancipation Park) का नाम बदलना

ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है (Brampton is a Green City)

सिटी ने, निम्नलिखित कार्मों के द्वारा, नवीनता, ऊर्जा सामर्थ्य, पब्लिक ट्रांजिट और कुदरती जगहों की बहाली पर ध्यान केंद्रित किया:

- अपने पहले बैकयार्ड गार्डन (Backyard Garden) प्रोग्राम की शुरुआत करना, जिसमें 6,000 लोगों ने हिस्सा लेकर, 10,000 पौंड सब्जियां लोकल फूड बैंकों को दान कीं
- ग्रीन हाउस गैसों की निकासी कम करने के लिए, अपना कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन्स रिडक्शन प्लान (Community Energy & Emissions Reduction Plan) पेश करना
- ट्रांजिट (Transit) प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग में 83.1 मिलियन डॉलर; और बाढ़ के जोखिम को कम करने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट के लिए 38 मिलियन डॉलर सुरक्षित करना
- ट्रांजिट की तीसरी फैसिलिटी की योजनाओं को मंजूरी देना, जो एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रांजिट देखभाल वाली और स्टोरेज वाली फैसिलिटी है

ब्रैम्पटन स्वस्थ और सुरक्षित शहर है (Brampton is a Healthy and Safe City)

सिटी ने, निम्नलिखित कार्मों के द्वारा, सामुदायिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता में वृद्धि करने और क्रियाशील एवं स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित करने में मदद की:

- पूरे ब्रैम्पटन में, कम्युनिटी सेफ्टी ज़ोन्स (Community Safety Zones) में 26 ऑटोमेटेड स्पीड एन्फोर्समेंट कैमरे (Automated Speed Enforcement Cameras) इंस्टॉल करना
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्दी के महीनों में, निवासी सुरक्षित रूप से क्रियाशील रह पाएं, चार नए आउटडोर स्केटिंग रिंक्स खोलना
- रेक्रिएशन सेंटर्स, पार्कों और फील्ड्स जैसी फिटनेस सहूलियतों के विस्तार पूरे करना
- पूरे शहर में क्रियाशील ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए 26 कि.मी. बाइक लेन्स का निर्माण करना

ब्रैम्पटन अच्छी तरह संचालित शहर है (Brampton is a Well-Run City)

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, निम्नलिखित कामों के द्वारा, महामारी के दौरान सेवा उत्तमता और अच्छी तरह संचालित सिटी बनने को प्राथमिकता देना जारी रखा:

- निवासियों को मुख्य सेवाएं प्रदान करते हुए, आरक्षित पूँजी में रिकॉर्ड योगदान के साथ, लगातार तीसरे वर्ष टैक्स न बढ़ाना
- ट्रिपल AAA क्रेडिट रेटिंग कायम रखना, यह सबसे बड़ी रेटिंग है, जो म्युनिसिपल्टी के ठोस वित्तीय कामों के लिए मिल सकती है
- मोबी इंस्पैक्ट (Mobi Inspect) को जल्दी अपनाना, जो फैसिलिटीज की जांच करने वाला एक ऐप है
- 34.9 मिलियन डॉलर (फेज 1 सेफ रिस्टार्ट प्रोग्राम), 27.5 मिलियन डॉलर (फेज 2 सेफ रिस्टार्ट प्रोग्राम) और 0.6 मिलियन डॉलर (म्युनिसिपल ट्रांजिट एडवार्ड क्लीनिंग फंड) की आर्थिक राहत के लिए हिमायत करना और इसे सुरक्षित रखना
- फोर्ब्स (Forbes) द्वारा कैनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स (Canada's Best Employers) में से एक के तौर पर नामांकित होना, जो पूरे देश में 300 श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की सूची है

2018-2022 की टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज के अंदर, 2020 की झलकियों और उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/tocp पर जाएं।

हवाले

“मुझे हमारी टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज की झलकियां और नतीजे पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो हमने, 2020 में टीम के तौर पर पूरी की हैं। महामारी के परिणामस्वरूप, सिटी का तत्काल फोकस, हमारे समुदाय की सहायता करना था। साथ ही, हमने मौजूदा 51 पहलकदमियों और 22 प्राथमिकताओं तथा काउंसिल द्वारा मंजूर की गई 20 अतिरिक्त पहलकदमियों पर, हमारा महत्वपूर्ण काम भी जारी रखा। अब हम 2021 की ओर बढ़ रहे हैं, 2021-2022 के लिए 16 प्राथमिकताओं पर, हमारी काउंसिल का तीव्र फोकस, यह सुनिश्चित करता है कि हम उस काम पर फोकस कायम रखते हैं, जो हमारे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2020 में, कोविड-19 के कारण हमने बेहद मुश्किल समय का सामना किया है। सिटी के स्टाफ ने, हमारे निवासियों, कारोबारियों और सामुदायिक समूहों की सहायता के लिए, बिना थके लगातार काम किया है। हमारी टीम लगातार, इस टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज को हासिल करना जारी रखते हुए, ग्लोबल महामारी के दौरान भी सिटी की सेवाओं को प्रभावशाली तरीके से प्रदान कर रही है। मुझे हमारी टीम की 2020 की उपलब्धियों को साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। काउंसिल की मिड-टर्म उपलब्धि के परिणामस्वरूप, 16 मुख्य प्राथमिकताएं, हमारे समुदाय को बेहद अच्छी सेवा प्रदान करने की, टीम ब्रैम्पटन की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।”

- डेविड बैरिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca